



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 18, 1984/माघ 29, 1905
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 18, 1984/MAGHA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

साद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(नागरिक आपूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1984

सा.का.नि. 75(अ) :—केन्द्रीय सरकार विधायक निस्सारित तेल, विनिर्मित
भोजन और खाने योग्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 के खंड 15 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के साद्य, कृषि, सामुदायिक विकास
और गृहकारिता मंत्रालय (साद्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1964
सारीख 9-10-68 के साथ प्रकाशित विधायक निस्सारित तेल, विनिर्मित भोजन और

खाने योग्य आटा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) आदेश, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विलायक निस्सारित तेल, विस्तारित भोजन और खाने योग्य आटा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) (संशोधन) आदेश, 1984 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. विलायक निस्सारित तेल, विस्तारित भोजन और खाने योग्य आटा (शक्तियों का प्रत्यायोजन) आदेश, 1968 की प्रथम अनुसूची के भाग ख में महाराष्ट्र राज्य से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)
“महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे सभी संगुक्त दायवृत्त, सहायक दायवृत्त, औषधि निरीक्षक और खाद्य निरीक्षक”

[संख्या 2-एस. ई. ओ. (2)/तेल/81]

एस. बी. एम. त्रिपाठी, संगुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 18th February, 1984

G.S.R. 75(E).—In exercise of the powers conferred by clause 15 of the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, the Central Government hereby makes the following order further to amend the Solvent-extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Delegation of Powers) Order, 1968, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 1864 dated the 9th October, 1968, namely :—

1. (1) This order may be called the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Delegation of Powers) (Amendment) Order, 1984.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent-extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Delegation of Powers) Order, 1968, in the First Schedule, in part B, for the entries relating to the State of Maharashtra, the following entries shall be substituted, namely :—

(1)

(2)

“Maharashtra

All Joint Commissioners,
Assistant Commissioners,
Drug Inspectors and Food Inspectors
working under Food and Drug
Administration. Maharashtra State.”

[2-SEO(2)|Del|81]

S. V. M. TRIPATHI, Jt. Secy.

